

इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)



IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(A Govt. of India Undertaking) An integrated Engineering and Construction Company

IRCON/SECY/STEX/124

3rd September, 2020

BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited
Listing Dept./ Dept of Corporate Services	Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers	Exchange Plaza, Plot no. C/I, G Block
Dalal Street	Bandra –Kurla Complex,
Mumbai – 400 001	Bandra (East) Mumbai – 400 051
Scrip code / ID: 541956 / IRCON	Scrip Code: IRCON-EQ

Sub: Newspaper publication regarding 44th Annual General Meeting

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed herewith Public Notice published in newspaper (in English and Hindi)on 3rd September, 2020, in compliance with Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular No.20/2020 dated 5th May, 2020, intimating that 44th Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, 29th September, 2020 at 11:30 A.M. (IST), through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means.

Please take note of above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Ircon International Limited

TOALBABA

(Ritu Arora) Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: FCS 5270





5

FINANCIAL EXPRESS

COMPANIES

Facebook India chief appears before parliamentary panel debating misuse of social media platforms

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, September 2

AMID A POLITICAL slugfest over the Facebook issue, the company's India head Ajit Mohan on Wednesday appeared before a parliamentary panel, which is discussing alleged misuse of social media platforms.

The Parliamentary Standing Committee on Information Technology, headed by senior Congress leader Shashi Tharoor, had called representatives of Facebook to hear their views "on the subject of safeguarding citizens' rights and prevention of misuse of social/online news media platforms including special emphasis on women security in the digital space," according to agenda of the meeting.

Mohan, managing director of Facebook India, appeared before the panel this afternoon, officials said.

He was inside the room for more than two hours but details about his deposition could not be immediately ascertained.

The panel had also called representatives of the ministry of electronics and infor-

Deepak Fertilisers ties up with



mation technology on the same issue, while a few others including some digital media activists also deposed before the panel.

An official said 18 members of the panel including the chairman were present.

Tharoor's announcement that the panel would like to hear from Facebook about a report published in the Wall Street Journal claiming that the social media platform ignored applying its hatespeech rules to politicians of the BJP in India, had evoked a

strong reaction from BJP members of the panel. BJP MP Nishikant Dubey

had alleged that the Congress leader has been using the panel's platform to further

his and his party's political agenda and even demanded his removal as chairman.

A fresh round of political slugfest started on the matter on Monday with Congress leader Rahul Gandhi claiming that the international media has "exposed" Facebook and WhatsApp's "brazen assault" on India's democracy and social harmony.

"No one, let alone a foreign company, can be allowed to interfere in our nation's affairs. They must be investigated immediately and when found guilty, punished," Gandhi tweeted.

IT minister Ravi Shankar Prasad also wrote to Mark Zuckerberg on Tuesday, accusing the social media platform's employees of supporting people from a political predisposition that lost successive elections, and "abusing" Prime Minister and senior cabinet ministers.

In a three-page letter to Facebook chief executive Zuckerberg, Prasad alleged "bias and inaction" by individuals in the Facebook India team on complaints by people supportive of right-ofcentre ideology.

Chinese competitors to gain in overseas market; incentive cap will impact prices: Bajaj Auto

GEETA NAIR Pune, September 2

TWO AND THREE-WHEELER maker, Bajaj Auto, could lose around ₹20 crore per month with the government imposing cap on incentives under the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) from September 1, 2020.

The benefit has been reduced to ₹2 crore per company instead of the ₹80 crore the company would have got under the scheme, hurting its competitiveness in global markets.

Rakesh Sharma, ED, Bajaj Auto, told *FE* that while the details were not clear, the cap of ₹2 crore for August to December 2020 was quite meagre."Two per cent is substantive and the abruptness of the withdrawal further complicates the issue as we are mostly facing off against price driven Chinese competitors overseas," Sharma pointed.

Every percentage counts and this is passed on to the customer and this could translate into a 2.5% increase in prices in the export markets, he said.

The Directorate Generate of Foreign Trade (DGFT) has estimated that 98% of the exporters' claim of MEIS will be

RA IA

unaffected by the changes. However, this incentive offered Bajaj Auto significant benefits. According to Sharma, Bajaj Auto received ₹230 crore under the MEIS in FY20. The company on an average got ₹20 crore per month from the scheme.

Bajaj Auto is the country's largest automotive exporter with the company exporting 2.17 million units in FY20 across 79 countries. In the first five months of FY21, Bajaj's exports were at 1.70 lakh units out of total sales of 3.56 lakh units.

However, there was good news on the sales performance front with the company witnessing a growth in August 2020 and selling 40% more vehicles than it did in July. Sharma said demand was back and they were preparing for a normal demand during the festival time.

Isha, Akash Ambani, Byju Raveendran debut agri value chain to help farmers on Fortune's '40 Under 40' influencer list

JSPL sells 49% in Oman venture to group firm, to exit in due course

FE BUREAU

New Delhi, September 2

JINDAL STEEL AND POWER (JSPL) on Wednesday said it has sold a 48.99% stake in Oman-based wholly owned venture Jindal Shadeed Iron and Steel to Vulcan steel, a Mauritius-based subsidiary of Templar Investment, another promoter group firm.

The transaction is in line with its JSPL's plan to continuously bring down its debt and deleverage its balance sheet.

On a consolidated basis, JSPL's net debt stood at ₹35,919 crore, as on March, 2020.

On June 30, JSPL had said it would transfer its entire



stake in Jindal Shadeed Iron and Steel to Templar Investments for an enterprise value of over \$1 billion.

"We wish to inform you that Jindal Steel & Power (Mauritius), wholly-owned

Templar Investment in the first tranche and is aiming to complete the entire sale the specified time," JSPL said in a regulatory filing. For the financial year ending March' 2020, Jindal

Shadeed reported 1.87 million tonne (MT) production and sales of 1.88 MT. The revenues and Ebitda

for FY20 came at \$ 910 million and \$138 million, respectively.

IO SYSTEM LIMITED

(REGD. OFFICE: GLOBAL KNOWLEDGE PARK, 19A & 19B, SECTOR-125, NOIDA-201301, UTTAR PRADESH) CIN: L65921UP1987PLC008764 Website: www.iosystem.co.in

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS	
FOR THE QUARTER ENDED ON 30 [™] JUNE, 2020	(Rs. in Lakhs)

TOR THE GOARTER ENDED ON 30 JONE, 2020			(RS. III Lakins)	
PARTICULARS	3 Months Ended on 30/06/2020	Preceding 3 Months Ended on 31/03/2020	Corresponding 3 Months Ended in the previous year on 30/06/2019	Year Ended on 31/03/2020
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	0.02	501.67		501.67
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(16.66)	480.09	(24.00)	396.83
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(16.66)	480.09	(24.00)	396.83
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(16.66)	480.09	(24.00)	396.83
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(16.66)	480.09	(24.00)	396.83
Equity Share Capital	1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00
Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(1,985.19)		55	(1,968.53)
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) : 1. Basic 2. Diluted	(0.10) (0.10)	2.84 2.84	(0.14) (0.14)	2.35 2.35

FE BUREAU Pune, September 2

DEEPAK FERTILISERS AND Petrochemicals Corporation (DFPCL) on Tuesday announced its tie-up with Samunnati, a specialised agrivalue chain enabler that offers customised financial, co-financial and non-financial solutions to stakeholders to create a positive impact in lives of farmers associated with farmer producer organisations (FPOs).

With this tie-up, DFPCL will offer crop-based advisory to help farmers under FPOs across four states to improve yields, quality and earnings. At the same time, the tie-up will also facilitate access to farm credit at affordable rates — thereby empowering farmers to improve scale and modernise the process.

According to the MoU, FPOs better income and livelihood", will be able to access crop-based Anil Kumar SG, founder and advisory and agri inputs CEO of Samunnati, said.

financialexp.epar.in

through DFPCL, along with customised finance options through Samunnati.

Technologies, is already working

with FPOs associated with

Samunnati and has appointed

~ 500 FPOs across 19 states to

make markets work for small-

holder farmers. This partnership

farmer members to have access

to inputs and capacity build-

"We have been working with

some of them as dealers.

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, September 2 Commenting on the MoU,

DFPCL's crop nutrition business BILLIONAIRE MUKESH president Mahesh Girdhar said, **AMBANI'S** twin children Isha "DFPCL will guide the FPOs and and Akash, and edtech startup associated farmers under the Byju's founder Byju Raveendran are among the Indians Samunnati umbrella for a better yield and with a mission to who have debuted on Fortune's transform their lives for the bet-'40 Under 40'list of influential ter." DFPCL, through its 100% people around the globe. owned subsidiary Smartchem

Stating that the coronavirus pandemic has fundamentally altered the way peoplework and socialise, Fortune magazine said executives have moved quickly to support and empower employees while grappling with daunting challenges to the way their businesses operate.

will enable FPOs and their "To reflect this wave of transformation, we decided ing/advisory services, creating that we needed to embrace change in this year's 40 Under 40. We needed to go bigger — and search more



Akash and Isha Ambani

widely," it said.

This year's list includes 40 influential people under 40 years of age in five categories finance, technology, healthcare, government and politics, and media and entertainment. In the technology list, Isha

and Akash Ambani feature with Byju Raveendran.

"They say data is the new oil — and when it comes to Reliance Industries, India's largest company, that's literally the case," Fortune said,



adding the 47-year-old conglomerate amassed a fortune Date : 02.09.2020 in petrochemicals before dominating the country's mobile connectivity market with Jio, a low-cost wireless carrier which

debuted in 2016. Reliance is a family business. Akash joined the company in 2014 after receiving

NOTE:

Place : Noida

The above Unaudited Standalone Financial Results are reviewed by the Audit Committee, approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 2nd September, 2020. Limited Review Report, as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, has been carried out by the Statutory Auditors.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites i.e. www.bseindia.com and on the company's website i.e. www.iosystem.co.in For IO SYSTEM LIMITED

Sd/-(KAMALAPATI KASHYAP) DIRECTOR DIN: 02359002



NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 55th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Friday, 25th September, 2020, at 11:00 A.M. The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e., MSTC Limited, 225C, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700/020.

In accordance with the General Circular No. 20/2028 dated 5th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 issued by the Ministry of Corporate Attains and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities Exchange Board of India (SEBI), the notice of AGM and Annual Report including the audited financial statements for the linancial year 2019-20 have been sent in electronic mode to members whose email IDs are registered with the Company or the depository participant(s). The electronic dispatch of Annual Report to members has been completed on 2nd September, 2020, the copy of Annual Report is also available on the Company's website www.mstcindia.co.in. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be available for inspection upon login at NSDL e-Voting system at www.evoling.nsdl.com

Instruction for Remote E-voling and E-voting during AGM :

- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Flule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide the facility to members to exercise their rights to vote by electronic means on resolution proposed to be passed at AGM. Members holding shares either in physical form or dematerialised form as on Thursday, 17th September, 2020 (cut-off date), can cast their vote electronically through electronic voting system (remote e-Voting) of NSCL at www.evoting.nsdl.com. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting. All members are hereby informed that the ordinary and special business as set out in notice of 55th AGM will be transacted through voting by electronic means only.
- The remote e-Voling period will commence at 9:00 A.M. on Monday, 21st September, 2020 and will end at 5:00 P.M. on Thursday, 24th September, 2020. The remote e-Voting module shall be disabled for voting at 5:00 P.M. Thursday, 24th September, 2020. Once the vote on resolution is passed by the member, the momber cannot modify it subsequently.
- Members who have acquired shares after sending of the Annual Report through electronic means and before out-off dates may obtain the USER ID and password by sending a request at evoling@insdi.co.in or cosec@mstcindia.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-Voling, then you may use your existing USER ID and password and cast your vote. Members attending the AGM who have not cast their votes by remote e-Voting shall be eligible to cast their. vote through e-Voting during the AGM. Members who have voted through remote e-Voting shall be eligible to atland the AGM, however, they shall not be slightle to vote at the meeting. The procedure of the electronic voting is available in the notice of the AGM as well as in the email sent to the members by NSDL. Please refer the 'e-Veting user manual' for members available in the downloads section. of the e-Voting website of NSOL www.evoting.nsdl.com. Members who need assistance before or during the AGM may a) Send a request at e-Voting at evoling@nsdl.co.in or use toilfree number 1800-222-990 or b) Contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSOL at the designated email ID evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone number +91-75066 82281. The notice of AGM is available on the Company's website www.mstcindia.co.in. on the website of stock. exchances i.e., BSE Limited and National Stock Exchance of India Limited and on the website of NSCL at www.evoting.nsdl.com

PRAG BOSIMI SYNTHETICS LTD.

Registered Office : House No.4, Ambikagiri Nagar, Milan Path, R. G. Baruah Road, Guwahati - 781 024. CIN No.: L17124AS1987PLC002758Email: secretarial@bosimi.com, Website : www.pragbosimi.com

Statement of Un-Audited Consolidated and Standalone Financial Result for the period ended 30.06.2020

	(₹in Lakhs)				
SI.	PARTICULARS	Quarter ended on			Audited 12 Months ended from
No.	TARTICOLARC	30-Jun-2020 (Unaudited)	31-Mar-2020 (Audited)	30-Jun-2019 (Unaudited)	
1	Total Income from Operations	38.90	560.86	667.12	1,872.15
2	Profit/(Loss) before exceptional and tax items	(303.88)	(473.03)	(386.18)	(1,575.01)
3	Profit/(Loss) before extraordinary item and tax	(303.88)	(473.03)	(386.18)	(1,575.01)
4	Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	(303.88)	(473.03)	(386.18)	(1,575.01)
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	(303.88)	(547.60)	(386.18)	(1,649.58)
6	Total other Comprehensive Income for the period	(303.88)	(547.60)	(386.18)	(1,649.58)
7	Paid-up equity share Capital				
	(Face Value of ₹ 10/- each)	7,440	7,440	7,440	7,440
8	Reserves excluding revaluation reserves as per	-	-	-	(2,409.44)
	balance sheet of the previous accounting year				
9	Earning Per Share (before extraordinary items)				
	(of ₹ 10/- each)				
	a) Basic EPS	(0.41)	(0.74)	(0.52)	(2.22)
	b) Diluted EPS	(0.41)	(0.74)	(0.52)	(2.22)
Th	The above is an extract of the detailed format of Standalone Un-Audited Financial Results for the guarter ended				

I ne above is an extract of the detailed format of Standalone Un-Audited Financial Results for the quarter ende 30th June 2020 filed with the Stock Exchange/s under Regulation 33 of the SEBI LODR Regulations, 2015. The full format of the Audited results for the year ended 30th June 2020 is available on the Company website "www.pragbosimi.com" and on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com

	For PRAG BOSIMI SYNTHETICS LTD.
	Sd/-
Discontinuitati	HEMANT B. VYAS
Place : Mumbai	MANAGING DIRECTOR
Dated : 02.09.2020	Din No.00076289

(A Govt. of India Undertaking) Regd. Off.: C-4, District Centre, Saket, New Delhi- 110017, INDIA Tel. No.: +91-11-29565666 Fax: +91-11-26854000, Web: www.ircon.org, E-mail: info@ircon.org, CIN: L45203DL1976G01008171

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR 44TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 44" Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, 29" September, 2020 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conference ("VC")/ Other Audit Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the members, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 08.04.2020, 13.04.2020 and 05.05.2020 respectively, and other circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") ("collectively called Circular") and SEBI Circular dated 12.05.2020 to transact the businesses set forth in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) in accordance with the aforesaid MCA Circular and SEBI Circular dated 12.05.2020. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report will also be available on the Company's website in the "Investors" Section at www.ircon.org and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively by 7° September, 2020. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM.

Manner of registering/ updating e-mail addresses:

 Those shareholders who have registered/not registered their mail address and mobile numbers including address may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form; and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), KFin Technologies Private Limited (KFintech) in case the shares held in physical form. (ii) Shareholders who have not registered their e-mail address and in consequence the Annual Report, Notice of AGM and e-voting notice could not be serviced.

an economics degree from Brown University. Isha joined a year later, following stints at Yale, Stanford and McKinsey. **IRCON INTERNATIONAL LTD.** IGON

AKASHDEEP METAL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 14 Dayanand Vihar, Backside Ground Floor, Vikas Marg Extn., Delhi-110092, Tel; +91-11-43011038, Email : info.akashdeep@gmail.com, CIN: L28998DL1983PLC017150 EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2020 Amount in Runa

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2020 UNAUDITED	Quarter Ended 31.03.2020 AUDITED	Quarter Ended 30.06.2019 UNAUDITED	Year Ended 31.03.2020 AUDITED
1	Total income from operations	1,14,96,474.44	1,70,56,263.02	1,29,37,025.47	5,23,81,429.72
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	66,73,953.41	61,67,073.74	83,90,921.89	2.75,43,432.27
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	66,73,953,41	61,67,073.74	83,90,921.89	2,75,43,432.27
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	71,76,388.12	35,52,771.01	77,79,047.26	2,22,24,807.45
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	70,44,333.87	19,39,412.37	77,79,047.26	2,23,56,861.70
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs 10/-)	8,50,26,210	8,50,26,210	8,50,26,210	8,50,26,210
7	Earning Per Share (of Rs 10/- each) Basic and diluted (not annualised)	0.84	0.42	0.91	2.61

Note: 1) The above is an extract of the detailed format of result for guarter ended on 30th June, 2020 filed with stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the said results are available on the website of BSE at www.bseindia.com as well as on the company's website at www.akashdeepmetal.in. (2) The key Standalone Financial Information for the quarter ended on 30th June, 2020 are given below:

Particulars	Quarter Ended 30.06.2020	Quarter Ended 31.03.2020	Quarter Ended 30.06.2019	Year Ended 31.03.2020
Turnover	11,97,605.00	12,37,929.00	11,46,338.00	46,75,677.00
Profit before tax	4,85,086.97	7,02,520.92	3,28,531.00	24,50,380.92
Profit after tax	3,60,177.08	5,27,307.92	2,47,190.10	18,08,276.92
			For Akashdeep Metal	order of the Boar

Shareholders may temporarily get their e-mail address and mobile number provider with the KFintech, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/email_registration/ for sending the same. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@KFintech.com.

- (iii) Alternatively member may send an e-mail request at einward.ris@KFintech.com along with scanned copy of the signed request letter providing the e-mail address. mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio.
- Manner of casting vote(s) through Remote e-voting/e-voting at AGM:
- (a) The Company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("remote evoting) provided by KFintech. Members are requested to click on https://evoting.kfintech.com for casting the vote electronically
- (b) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and only those Members, who are present in the AGM and have not cast their vote on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be eligible to vote during the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at https://emeetings.kfintech.com/. The login credentials for casting the votes through remote e-voting / e-voting shall be made available to the members through e-mail whose email addresses registered with the Company/RTA/Depository Participants.

5. Manner of registering mandate for receiving dividend:

- (a) Payment of dividend shall be made through electronic mode to the Shareholders who have updated their bank account details. Dividend warrants /Demand drafts will be dispatched to the registered address of the shareholders who have not updated their bank account details, after normalisation of the postal service.
- (b) For payment of dividend electronically, Members who have not opted for Electronic Clearing System (ECS) facility earlier are requested to fill up ECS Mandate Form and submit it directly to their Depository Participants to avail the ECS facility. Those holding shares in physical form may send the ECS Mandate Form to KFintech. The shareholders who hold shares in Physical form and who do not wish to opt for ECS facility may please mail their bankers' name, branch address and account number to KFintech to enable them to print these details on the dividend warrants.
- 6. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular instructions to register/ update e-mail ID, joining AGM. manner of casting vote through remote e-voting or voting at the AGM and Dividend related information.

For Ircon	International	Limited
		Sd/-

Place: New Delhi Date: 01.09.2020 **Company Secretary & Compliance Officer**

The register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Friday, 18th September, 2020 to Friday, 25th September, 2020 (Both days inclusive).

Manner of registering/ updating email addresses	Manner of joining the AGM	TDS on Dividend
Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company at <u>cosec@msteindla.co.in</u> along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the member, self-attested copy of the PAN Card, and self-attested copy of any documents (e.g. Driving license, election ID card, passport) in support of the address of the member. Members holding shares in domaterialised mode are requested to register/update their email addresses with the relevant depository participants.In case of any queries/difficulties in registering the email address, members may write to cosec@msteindia.co.in	A facility to attend the AGM through VC/OAVM is available through the NSDL e-Voting system at www.exoting.nadl.com.	As per the income Tax Act 1951, as amended by the Finance Act, 2020, the dividend paid or distributed by a company after 1s April, 2020 shall be taxable in the hands of members The company shall deduc Tax at Source (TDS) at the time of making the payment of final dividend. Members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the income Tax Act, 1961.
	For	MSTC Limited
Date : 3rd September, 2020	Aj	ay Kumar Rai
Place : Kolkata	Company Secre	stary & Compliance Office



Ritu Arora











जनसत्ता, नई दिल्ली, 3 सितंबर, 2020 3

कोरोना योद्धा के परिवार को एक करोड रुपए की आर्थिक सहायता



and 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 11th day of September, 2020, inter alia, to consider, approve and take on record the un-audited financial results of the Company for the quarter ende June 30, 2020.

Pursuant to the "IRCTC's code of conduct for regulating and reporting trading by Designated Persons and their immediate relatives" the Trading Window Closure Period has already commenced from 1st July, 2020 upto 48 hours from the date the said financial results are made public

This information is also available on website of the Company i.e www.irctc.com and also on the website of Stock exchanges where the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED Place: New Delhi Suman Kalra

Company Secretary and Compliance Office Date: 02nd September, 2020

हेल्पएज फिनलीज लिमिटेड

पंजी. कार्या.: एस-191/सी, 3रा तल, मानक कॉम्प्लैक्स, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092 sंमेल आईडी: info@helpagefinlease.com, वेबसाईट: www.helpagefinlease.com CIN: L51909DL1982PLC014434, सम्पर्क नं.: 011-22481711

38वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना ाद्द्वारा सूचित किया जाता है कि हेल्पएज फिनलीज लिमिटेड (''कम्पर्नी'') के सदस्यों की 38वीं वार्षिक साधा भा (''एजीएम'') शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 को 3.00 बजे अप. में विडियो कान्फ्रैंस (''वीसी'')/अन्य ऑडिय वेजअल माध्यमों (''ओएवीएम'') संविधा से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा जारी साधार . क्यूंलर नं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 तथा लागु होने वाले अन्य सभी कानुनों तथा सर्क्युलर्स तथा भारतीय गतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सर्क्युलर्स के अनुपालन में सभा की सूचना तिथि 11 अगस्त, 202 को निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये आयोजित की जायेगी।

रपरोक्त सर्क्यलर्स के अनपालन में वित्त वर्ष 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम सचना उ इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऐसे सभी शैयरधारकों को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट् 5 पास पंजीकृत हैं।

कम्पनी ने नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के प्लेटफार्म पर ई–वोटिंग सुविधा के माध्य से 38वीं वार्षिक साधारण सभा की सचना में वर्णित सभी व्यवसायिक मदों को निष्पादित करने के लिये इलेक्टॉनिव वोटिंग सुविधा प्रदान की है। सदस्य सभा के अन्यत्र के किसी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई–वोटिंग) का उपयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे पूव शरू होगी तथा गरुवार, 24 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप, में बंद होगी। उक्त तिथि एंव समय के बाद इ बोटिंग स्वीकृत नहीं होगी।

जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात् 18 सितम्बर, 2020 को सदस्यों/लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर गामिल होगा. केवल वे हीं रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिये अधिकत होंगे। जि सदस्यों ने रिमोट ई−वोटिंग द्वारा अपने मतदान कर दिये हो, वे सभा में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु फिर से मतदा ь लिये अधिकृत नहीं होंगे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 ^{हे} वेनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पस्तकें शनिवार. 19 सितम्ब 2020 से शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं, peetalrta@gmail.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट्स, मै. बीटल फाइनांसियल कम्प्यू सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड से रिमोट ई-वोटिंग के लिये युजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। युजर आईड था पास्वर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया कम्पनी की वेबसाईट www.helpagefinlease.com तथ ाएसडीएल की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

-वोटिंग के परिणामों की घोषणा कम्पनी की वार्षिक सभा में या बाद में की जायेगी। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के स , प्रेषित परिणामों को स्टॉक एक्सचैंजों में अग्रसारित करने के अतिरिक्त सदस्यों की जानकारी के लिये कम्पनी तथ ाएसडीएल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। सूचना तथा कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाई ार्थात् www.helpagefinlease.com पर प्रकाशित है। यदि एजीएम में उपस्थित होने तथा ई–वोटिंग से संबंधि आपकी कोई समस्या या प्रश्न हो, तो आप www.evoting@nsdl.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQ's") तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा पूछताछ के लिये एनएसडीएल के अधिकारिायों १ अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, 022–24994360 अथवा ईमेल amitv@nsdl.co.in, सुश्री पल्ल म्हात्रे, प्रबंधक एनएसडीएल, 022-24994546 से सम्पर्क करें अथवा pallavid@nsdl.co.in पर ई-मेल करें। हेल्पएज फिनलीज लिमिटेड के लि

> हस्ता./ सिद्धार्थ गोयत प्रबंध निदेशव

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कोरोना योद्धा राजेश कुमार भारद्वाज के परिजनों से मुलाकात की और परिवार को एक करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। 52 वर्षीय राजेश कुमार भारद्वाज, नबी करीम स्थित सीडीएमओ कार्यालय में फार्मेसिस्ट थे। काम के दौरान उनकी कोरोन से मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सेवा और समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा और सरकार उनके परिवार को भविष्य में भी हर संभव मदद करेगी। राजेश कुमार मध्य जिले के नबी करीम में कार्यरत्त थे और परिवार के साथ फरीदाबाद में रह रहे थे। कोरोना संक्रमण के दौरान वह ड्यूटी पर थे। ड्यूटी के दौरान ही 29 जून 2020 को वह कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए और 20 जुलाई को उनका निधन हो गया था। (ज.सं)

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दूसरे में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये . समाचार-पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में तथा

मै. मुस्प्रिंग डेयरी फार्म प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-68, एफएफ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ऊपर, ग्रेटर कैलाश−1, नई दिल्ली डीआई 110048 में है, के मामले में। आवेदक

एतदद्वारा आम जनता को सचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली राज्य'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 18 अगस्त, 2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कम्पनी के पंजीकत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी−2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स. नई दिल्ली− 110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

बी-68, एफएफ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ऊपर, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली डीआई 110048

कृत्ते एवं के लिये मै. मूस्प्रिंग डेयरी फार्म प्राईवेट लिमिटेड विवेक वाधवा

	निदेशक,
	DIN: 08349156
तिथि: 3 सित. 2020	पताः एच. नं. ई−5∕8, मुस्कान स्वीट्स के निकट,
स्थानः नई दिल्ली	सेक्टर-ई, राजाजीपुरम आवास
विकास कॉलोनी,	. बक्शी का तालाब, लखनऊ 226017 यूपी आईएन

How to save existing jobs and create new ones?

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः 01.09.2020



देश में कोरोना के मामलों में दिल्ली छठे पायदान पर

नई दिल्ली 🦱

बुधवार को सामने आए 2509 नए मामले, 19 की मौत

कोरोना को रोकने के लिए बस व रेलवे स्टेशनों पर होगी जांच

बधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता वाली बैठक में फैसला लिया गया है कि कोरोना के लगातार बढते जा रहे मामलों को नियंत्रित करने के लिए बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर भी कोरोना की जांच बढ़ाई जाएगी। दिल्ली में बढ़ रहे मामलों के बाद उपराज्यपाल ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक बुलाई थी। जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित थे। फैसला लिया गया है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में निर्माणधीन स्थल भी है। इन स्थलों पर भी जांच

जा सके। संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार को आदेश दिए गए हैं कि वह सख्ती से नियमों का पालन करे और केंद्र सरकार द्वारा जारी हिदायते लागू करने के लिए सख्ताई से पेश आए।

मांग पर हो सकेगी कोरोना जांच

जल्द ही दिल्ली में मांग पर कोरोना की जांच हो सकेगी। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए कुछ कदम उठाकर शहर की परीक्षण क्षमता बढाने का निर्देश दिया। इन कदमों में मांग पर जांच, सीमावर्ती इलाकों तथा बड़े निर्माण स्थलों पर जांच करना शामिल है। शहर में ऐसी जांच सुविधाएं लाने के लिए विस्तुत मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार करने को कहा। इसके लिए जल्द एक हेल्पलाइन नंबर भी शरू किया जाए, जहां एक व्यक्ति जिसमें कोविड-19 के लक्षण हैं, वह जांच बुक करा सके और बाद में अपने घर पर इस सुविधा को पा सके। इस योजना के पहले चरण में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को मांग पर जांच की सुविधा मिल सकती है। अन्य विकल्प है कि लोग हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर पास के केंद्रों पर जांच की बुकिंग करा लें।

और दो हफ्ते इलाज के लिए मरीजों को दाखिल नहीं करेगा एम्स जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 2 सितंबर।

एम्स की ओपीडी में आने वाले मरीजों को किसी इलाज के लिए अभी दो हफ्ते तक भर्ती नहीं किया जाएगा। केवल इमरजेंसी की सूरत में आने वाले मरीज ही भर्ती किए जाएंगे। यानी चयनित ऑपरेशन वगैरह अभी दो हफ्ते तक और नहीं किए जा सकेंगे। एम्स ने एक जारी बयान में यह जानकारी दी। कोरोना के बढ रहे संक्रमण के बीच एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉ डीके शर्मा ने बुधवार के एक आदेश जारी किया है। इसमें किए गए प्रावधानों के तहत एम्स की ओपीडी में आने वाले सीमित मरीजों को भी अभी सर्जरी या इलाज के लिए भर्ती करने जैसी सेवाएं नहीं मिल पाएंगी।

एम्स ने तय किया है कि अभी अगले दो हफ्ते तक ओपीडी में दिखाने आने वाले मरीजों को अगर किसी इलाज के लिए भर्ती करने की जरूरत है तो भी उन्हे इंतजार करना होगा। अभी दो हफ्ते तक यह रोक जारी रहेगी।ेंकहा गया है कि गंभीर मरीजों व आंशिक गंभीर मरीजों के इलाज के लिए मौजूदा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए फिलहाल नियिमत तौर पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को⁄ रोक दिया गया है। ताकि सामान्य वार्डों व निजी वार्डों में उपलब्ध बिस्तरों का उपयोग गंभीर मरीजों के इलाज के लिए किया जा सके।

डरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) पंजीकृत कार्यालय: सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017, भारत प्रजाहन मानवार गान्म, 1977 प्रायम, 1977 हिंदी, 1977 हैं के 1977 है 1977 है के 1977 है 1977 1977 है 1977 है 1977 1977 1977 है 1977 1977 197 44वीं वार्षिक आम बैठक के लिए शेयरधारकों हेतु सूचना एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू होने वाले प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों और सामान्य परिपत्र संख्या क्रमश 14/2020,

प्रकाश वुलन एण्ड सिंथेटिक मिल्स लिमिटेड पंजीकत कार्यालय : 18वां किमी स्टोन, दिल्ली-मरादाबाद रोड, एनएच-24, ग्राम अमहेड़ा, जिला अमरोहा-244102 दुरभाष : 0591 -2223008/18 फैक्स : 0591-2223009 वेबसाइट : www.prakashwoollen.com; ई-मेल : info@prakashwoollen.com CIN: L17291UP1979PLC004804

एतद्वारा सुचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना दिनांक 21 अगस्त, 2020 लिमिटेड के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'' बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. 18वां किमी स्टोन, दिल्ली-मुरादाबाद रोड, एनएच-24, ग्राम अमहेड़ा, जिला अमरोहा-244102 पर आयोजित की जायेगी। एजीएम की सुचना एवं उसका व्याख्यात्मक विवरण तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते एजीएम की सूचना कम्पनी की सितम्बर, 2020 को पूरा किया जा चुका है। ई–वोटिंग :

कम्पनी ने रिमोट ई–वोटिंग सेवाओं की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड (''सीडीएसएल'') के साथ समझौता किया है कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा नियमों के अनुसार विवरण नीचे दिया गया है :

- (1) सूचना भेजने की समाप्ति तिथि : 02 सितम्बर, 2020
- इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान प्रारम्भ करने की तिथि एवं समय (2) सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को 10.00 बजे प्रातः
- इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान समाप्त होने की अंतिम तिथिः बुधवार, (3)23 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अपराहन

है। इस समय दिल्ली में 16502 सक्रिय मरीज हैं

संक्रमण के अब तक सबसे अधिक मामले सामने

आए हैं। बुधवार को दिल्ली में 2509 मामले

सामने आएँ हैं और 19 मरीजों की मौत हुई है।

मरीजों का आंकड़ा 179569 हो गया है। इस

आंकड़े के साथ दिल्ली देश का ऐसा छठा राज्य

हो गया है जिसमें सर्वाधिक मामले हैं। सबसे

ऊपर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक,

उत्तर प्रदेश और इसके बाद दिल्ली का नंबर है।

दिल्ली में अब तक 158586 मरीज ठीक हुए हैं।

इनमें से 1858 बुधवार को ही ठीक होकर घर

लौटें है। अब तक यह बीमारी दिल्ली में 4481

मरीजों की जान ले चुकी है। सरकारी रिपोर्ट के

मुताबिक लगातार सॉमने आ रहे मामलों की

वजह से सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़ रही

इन नए मामलों के साथ ही दिल्ली में कुल

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 2 सितंबर कोरोना संक्रमण के लगातार सामने आ रहे मामलों ने दिल्ली को देश में 6 छठे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। देश के 10 शहरों में से दिल्ली छठा ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना

राजधाना

की जाए ताकि अगर वहां से मामले सामने आ रहे हैं। तो उन पर नजर रखकर उन्हें नियंत्रित किया

और 8407 मरीजों का इलाज घर में एकांतवास मामलों की वजह से सील क्षेत्रों की संख्या भी में किया जा रहा है। लगातार सामने आ रहे नए 🛛 बढ़ रही है।

एजीएम की सूचना

में निर्धारित प्रकार्य पर लेन-देन के लिए प्रकाश वुलन एण्ड सिंथेटिक मिल्स कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट तथा वेबसाइट (www.prakashwoollen.com) तथा www.evotingindia.com भी उपलब्ध होगी। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट भेजने का कार्य 02

- 17/2020 और 20/2020 दिनांक 08.04.2020, 13.04.2020 एवं 05.05.2020 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 तथा कॉरपोरेंट मामले मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी अन्य परिपत्रों ("सामूहिक रूप से परिपत्र कहा गया है') और सेबी परिपत्र 12.05.2020 के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी की 44वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य दृश्य अव्य साधन ("ओएवीएम") के माध्यम से **मंगलवार, 29 सितंबर, 2020 को प्रातः 11:30 बजे (भा मा** स.) आयोजित की जाएगी।
- उपरोक्त एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र दिनांक 12.05.2020 के अनपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से भेजी जा रही हैं, जिनके ई-मेल पते कपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(एस) के साथ पजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर ''इन्वेस्टर्स'' खण्ड में और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी 7 सितंबर, 2020 तक उपलब्ध होगा । सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के लिए अनुदेश एजीएम की सूचना में दिये गए हैं।

ईमेल पतों को पजीकृत/अद्यतन करने का तरीका

- (i) जिन शेयरधारकों ने पता सहित अपने ई—मेल पते और मोबाइल नंबरों को पंजीकृत किया है/नहीं किया है, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में डिंपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से और भौतिक रूप से शेयर के मामले में कंपनी के रजिस्टार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) से सम्पर्क कर और अपने विवरण को सत्यापित ∕ अपडेट कर सकते हैं।
- ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और इसके परिणाम में वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और ई—वोटिंग सूचना को भेजा नहीं जा सकता है**।** शेयरधारक https://ris.kfintech.com/email_registration/ लिंक पर क्लिक कर केफिनटेक के पास उपलब्ध उनके ईमेल पते और मोबाइल नंबर को उन्हें भेजने के लिप अस्थायी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी पूछताछ के मामले में, शेयरधारक einward.ris@KFintech.com को लिख सकते हैं |
- (iii) वैकल्पिक रूप से सदस्य इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर कॉपी तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की कॉपी सहित अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि की स्कैन कॉपी, जिसमें ई–मेल पता, मोबाइल नंबर उल्लेखित ह एवं स्व–सत्यापित पैन कॉपी के साथ einward.ris@KFintech.com पर ई–मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग/ई—वोटिंग के माध्यम से वोट करने का तरीका:

- (क) कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ("रिमोट ई–वोटिंग") से एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावों पर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है सदस्यों से अनुरोध है कि वोट डालने के लिए https://evoting.kfintech.com पर क्लिक करें |
- (ख) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी एजीएम उपलब्ध कराई जाएगी और केवल वे सदस्य, जो एजीएम में मौजूद हैं और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, एजीएम के दौरान मतदान करने के लिए पात्र होंगे | सदस्य https://emeetings.kfintech.com/ पर वीसी / ओएवीएमके माध्यम र एजीएम में भाग ले सकेंगे | रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल उन सदस्यों को ई मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा जिनव ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं।

लामाश प्राप्त करने के लिए मेंडेट दर्ज कराने का तरीका

- (क) लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को किया जाएग जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है । लाभांश वारट / डिमांड डाफ्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे जिन्होंने डाक सेवा के सामान्य होने के बाद अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है |
- (ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप से लामाश के मुगतान के लिए, जिन सदस्यों ने पहले इलेक्ट्रॉनिक विलयरिंग सिस्टम (ईसीएस) सुविधा का विकृत्य नहीं चुना है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि ईसीएस मैंडेट फॉर्म को भरें और ईसीएस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उसे सीधे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास जमा कर दें। भौतिक रूप मं शेयर रखने वाले व्यक्ति केफिनटेक के पास ईंसीएस मेंडेट फॉर्म भेज सकते हैं। व शेयरधारक जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जो ईसीएस सविधा का विकल्प नई चुनना चाहते हैं, वे अपने बैंकर का नाम, शाखा का पता और खाता संख्या केफिनटेक ो मेल कर सकते हैं ताकि वे लाभांश वारंट पर इन विवरणों को प्रिंट कर सकें।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी नोट्स को, विशेष रूप से ईमेल आईडी को रजिस्टर/अपडेट करना, एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में वोट डालने के तरीके और लाभाश से संबंधित जानकारी के लिए विशिष्ट निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए

जगहः नई दिल्ली हरपा/-रितु अरोडा कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी दिनांकः 01.09.2020

- बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अपराहन के उपरान्त (4)इलेक्टॉनिक साधनो द्वारा मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की पात्रता निर्धारण करने हेतु कट-(5)ऑफ तिथि 17 सितम्बर, 2020 है।
- सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के उपरान्त भी साधारण (6)बैठक में भाग ले सकते हैं किन्तु उन्हें दुबारा मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- जिन सदस्यों के नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा (7)अनरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि तक दर्ज हैं केवल वे रिमोट ई-वोटिंग तथा आम बैठक में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
- एजीएम के समय बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सविधा (8)उपलब्ध करायी जायेगी और बैठक में उपस्थित होने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया है वे बैठक के दौरान बैलट पेपर के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।
- कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और सुचना (9)भेजने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात 17 सितम्बर, 2020 तक शेयर धारण करता है वह evoting@cdslindia.com पर जारीकर्ता/आरटीए के पास निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- (10) 41वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.prakashwoollen.com तथा www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
- इलेक्ट्रॉनिक मतदान निर्देश के लिए सदस्य 41वीं एजीएम की सूचना (11)में उल्लिखित निर्देश देखें और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से सम्बन्धित किसी पूछताछ/शिकायत के लिए शेयरधारक www.evotingindia.com के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का सन्दर्भ लें या टोलफ्री नं. : 1800-200-5533 पर कॉल करें।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों तथा ग्रीन इनिशिएटिव के अंग के रूप में कम्पनी सूचना(ओं)/दस्तावेज(जों)/वार्षिक रिपोर्ट(टीं) की सेवाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपने ई–मेल पते उपलब्ध कराने/अपडेट करने के लिए कम्पनी सदस्यों को प्रोत्साहित करती है। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों हेतु रिकार्ड अपडेट करने के निवेदन कम्पनी या आरटीए के पास तथा अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने की स्थिति में डिपॉजिटरी भागीदार के पास भेजे जाने हैं।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार प्रकाश वुलन एण्ड सिंथेटिक मिल्स लिमिटेड

(विजय कुमार गुप्ता) (पूर्णकालिक निदेशक) डीआईएन : 00335325

तिथि : 92.09.2020 स्थान : ग्राम अमहेड़ा (अमरोहा)

हस्ता/-

with

Mahesh Vyas

CEO Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE)

Between 2012 and 2018, the absolute number of people employed in India actually fell -a first in the country's history. In 2017-18, the level of unemployment in the country reached a four-decade high.

Since then, India's economic growth has decelerated with each passing year, further constraining employment opportunities.

And now, the economic disruption brought by the Covid-19 pandemic has dealt a crushing blow to whatever employment prospects were left.

Exactly how bad is India's jobs crisis? What are the variations in terms of geography and industry? What can be done to address -- and hopefully remedy -- this situation?

Listen to Mahesh Vyas, CEO of the think tank Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), at the next session of Explained.Live.

Vyas will be in conversation with

Udit Misra

Deputy Associate Editor, The Indian Express







To register, SMS - IEEXP <space> "JS" <space> "Your name and email ID" to 56161 Confirmation SMS will be your registration.



🔇 IndianExpress.com/apps

twitter.com/IndianExpress

f facebook.com/IndianExpress